

अध्याय - 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत

QUIZ
PART-05

1. आढ़त (फैक्टरिंग) का मुख्य कार्य क्या है?

- A. बैंक ऋण प्रदान करना
- B. प्राप्य बिलों को कटौती पर खरीदकर तत्काल भुगतान देना
- C. ग्राहक को ब्याज रहित ऋण देना
- D. सरकारी करों का भुगतान करना (B)

व्याख्या: फैक्टरिंग में फैक्टर प्राप्य बिलों को कटौती पर खरीदता है और त्वरित भुगतान देता है।

2. फैक्टरिंग सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ?

- A. 1985 में
- B. 1990 के दशक में
- C. 2000 में
- D. 1998 में (B)

व्याख्या: फैक्टरिंग भारत में 1990 के दशक में RBI की पहल पर शुरू हुई।

3. फैक्टरिंग में फैक्टर कौन-सी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है?

- A. स्टॉक प्रबंधन
- B. ग्राहकों की साख संबंधी जानकारी
- C. विज्ञापन
- D. उत्पाद विकास (B)

व्याख्या: फैक्टर ग्राहकों की साख का रिकॉर्ड रखता है और जोखिम वाले व्यापार से बचाव में मदद करता है।

4. निम्न में से कौन फैक्टरिंग सेवा प्रदान करने वाले संगठनों में शामिल है?

- A. SEBI
- B. भारतीय स्टेट बैंक
- C. रेलवे विभाग
- D. आयकर विभाग (B)

व्याख्या: भारतीय स्टेट बैंक सहित कई बैंक व गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ फैक्टरिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं।

5. फैक्टरिंग का एक प्रमुख गुण क्या है?

- A. संपत्तियों पर प्रभार लगता है
- B. बैंक की तुलना में सस्ता तरीका
- C. रिकवरी का जोखिम ग्राहक पर होता है
- D. भुगतान लंबे समय बाद होता है (B)

व्याख्या: फैक्टरिंग बैंक ऋण की तुलना में कई बार सस्ता व सरल विकल्प होता है।

6. फैक्टरिंग का कौन सा लाभ है?

- A. नकद प्रवाह में वृद्धि
- B. ऋण अवधि बढ़ना
- C. ब्याज दर कम होना
- D. आयकर में छूट मिलना (A)

व्याख्या: फैक्टर त्वरित भुगतान देता है, जिससे नकद प्रवाह बेहतर होता है।

7. फैक्टरिंग की एक सीमा क्या है?

- A. हमेशा ब्याज मुक्त होती है
- B. छोटे बिलों पर महंगी पड़ती है
- C. ग्राहक स्वयं वसूली कर सकता है
- D. यह केवल दीर्घ अवधि के लिए होती है (B)

व्याख्या: छोटे और बड़ी संख्या में बिल होने पर फैक्टरिंग महंगी साबित हो सकती है।

8. फैक्टरिंग में जोखिम कौन वहन करता है?

- A. केवल ग्राहक
- B. केवल बैंक
- C. प्रकार के अनुसार—फैक्टर या ग्राहक
- D. सरकार (C)

व्याख्या: फैक्टरिंग दो प्रकार की होती है—एक में जोखिम फैक्टर वहन करता है, दूसरी में ग्राहक।

9. फैक्टरिंग का कौन-सा लाभ ग्राहक के लिए उपयोगी है?

- A. फैक्टर ग्राहक के लिए स्टॉक खरीदता है
- B. ग्राहक अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है
- C. ग्राहक को ऋणमुक्ति मिल जाती है
- D. ग्राहक कर छूट प्राप्त करता है (B)

व्याख्या: वसूली संबंधी कार्य फैक्टर संभालता है, जिससे ग्राहक अपने कार्यों पर ध्यान दे सकता है।

10. फैक्टरिंग में सेवादाता द्वारा ली जाने वाली राशि क्या कहलाती है?

- A. कमीशन
- B. सेवा शुल्क
- C. लेनदेन शुल्क
- D. ब्याज (B)

व्याख्या: फैक्टर अपनी वित्तीय व सलाहकार सेवाओं के बदले सेवा शुल्क लेता है।